



हिन्दी दैनिक



समाचार-पत्र

# अमित रेखा



वर्ष 05 अंक 154 कुशीनगर सोमवार 05 अप्रैल, 2021 पृष्ठ 8 मूल्य 1 रुपये

नक्सली हमला: बीजापुर में 30 जवान शहीद होने की आशंका

## घटनास्थल पर 20 के शव

- नक्सली कमांडर हिडमा की बटालियन ने पुलिस पर किया हमला
- मुठभेड़ स्थल पर अभी भी जारी है सर्व ऑपरेशन
- मुठभेड़ में नक्सलियों को हुआ है काफी नुकसान
- 24 घंटे बाद भी नहीं पहुंची रेस्क्यू टीम

रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में 24 जवान शहीद हो गए हैं। कुख्यात नक्सली हिडमा को पकड़ने के लिए जवान उसके मांद में घुसे थे। 2000 जवानों की टीम अलग-अलग इलाकों हिडमा की टीम को पकड़ने के लिए जंगल के अंदर घुस रही थी। नक्सली शुरुआत में जवानों को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया। उन्हें घने जंगलों में अंदर तक घुसने दिया। सुरक्षा बलों की टीम कई हिस्सों में बंटी हुई थी। एक टीम को हिडमा की बटालियन ने अपनी एंशु में फंसा लिया है। उसके बाद जवानों की घेराबंदी कर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिडमा की बटालियन ने जवानों को तीन तरफ से घेर लिया था। जवान घने जंगल में फंसे थे और हिडमा की

बटालियन पहाड़ के ऊपर से फायरिंग कर रही थी। चारों तरफ से घिरे जवानों के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसके बाद भी जवानों ने हिडमा की बटालियनको मुहताज जवाब दिया है। इस हादसे में नक्सलियों को भी बहुत नुकसान हुआ है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नक्सली मौके से चार ट्रैक्टर में भरकर अपने साथियों के शव ले गए हैं। कुछ दिन पहले ही हिडमा ने पुलिस को चुनौती थी। हिडमा की बटालियन में आठ सौ नक्सली बताया जाता है कि हिडमा की सुरक्षा में नक्सलियों की सबसे घातक टीम रहती है। यह टीम अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। मुठभेड़ स्थल पर मौजूद एक जवान ने बताया कि इस टीम में करीब आठ सौ की संख्या में नक्सली थे। उन्होंने जवानों के ऊपर हमला किया



पीएम मोदी ने दुख जताया



है। हिडमा खुद कभी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शरण लेते रहती है। घटना वाली जगह भी तेलंगाना की सीमा से लगती है। रॉकेट लॉन्चर से हमला हिडमा के साथ रहने वाले नक्सलियों के पास कई अत्याधुनिक हथियार है। कई राज्यों की पुलिस नक्सली कमांडर हिडमा की तलाश कर रही है। उसके बावजूद भी वह पकड़ में नहीं आया है। पुलिस बल के ऊपर उसकी टीम ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। पहाड़ों से नक्सली आसानी से नीचे मौजूद

जवानों को अपना निशाना बना रहे थे। घायल जवानों के मुताबिक यूबीजीएल, रॉकेट लॉन्चर और इसास समेत एके-47 से यू शोप में दोनों पहाड़ियों के बीच घेरकर नक्सली 100 से 200 मीटर की दूरी से फायर कर रहे थे। च्द मोदी ने दुख जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के शहीद होने पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जवानों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा। मेरी संवेदनाएं छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ हैं। वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है।

बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है।



जम्मू-कश्मीर के राजोरी जिले के खवास शिक्षा जोन के तहत पड़ने वाले बेई नंबल गांव स्थित सरकारी मिडिल स्कूल भवन की खस्ता हालत से छात्र और उनके अभिभावक काफी परेशान हैं। स्कूल बिना छत के चल रहा है। दीवारें भी ढह रही हैं। गुस्साए अभिभावकों ने चेतावनी दी कि अगर स्कूल की मरम्मत न की गई तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। नायब सरपंच अरशद हुसैन, मोहम्मद फारुक, अब्दुल रशीद व अन्य ने बताया कि 4 कमरों के सरकारी मिडिल स्कूल में 40 बच्चे पढ़ते हैं। यहां छह शिक्षक नियुक्त हैं।

## छत्तीसगढ़, झारखंड में लगातार बढ़ती नक्सली गतिविधि चिंता का विषय: जावड़ेकर

नयी दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में जान गंवाने वाले जवानों को रिवारो को श्रद्धांजलि दी और कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में बढ़ती नक्सली गतिविधियां चिंता का विषय हैं। उन्होंने टवीट कर कहा, "छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे वीर जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।" जावड़ेकर ने कहा, "झारखंड और छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती नक्सली गतिविधि चिंता का विषय है।" छत्तीसगढ़ में बीजापुर और सुकमा जिलों की सीमा के बीच एक जंगल में नक्सलियों के साथ शनिवार को हुई मुठभेड़ में कम से कम पांच सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और 30 अन्य घायल हो गए।



## सोनभद्र के बिजलीघर में हुए हादसे में 13 मजदूर घायल सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक निजी कंपनी के बिजलीघर में रविवार तड़के हुई एक दुर्घटना में 13 श्रमिक घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव को इसकी जांच के आदेश दिए हैं। सोनभद्र के अनपरा क्षेत्र में लैंको वंमनी के बिजलीघर के प्रब्लेक एस्कके द्विकेरी द्वारा पुलिस को दी गई सूचना के मुताबिक परियोजना की द्वितीय इकाई के अनुक्षण कार्य के तहत कुछ मजदूर तड़के करीब 2रू45बजे बॉयलर पर काम कर रहे थे कि तभी अचानक भाड़ा (सीढ़ी)गिर जाने से 13 मजदूर घायल हो गए। उन्होंने बताया कि आठ मजदूरों को परियोजना परिषद स्थित अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि पांच अन्य मजदूरों को गंभीर हालत में जयंत क्षेत्र स्थित नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच, सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव को इसकी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जांच कर इस घटना की जिम्मेदारी तय करते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। सहगल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं।

## अयोध्या में नागा साधु महंत कन्हैया दास की ईंट से सिर कूच कर हत्या

अयोध्या (एजेंसी)। रामनगरी अयोध्या में एक साधु वेशधारी की ईंट से कूच कर नृशंस हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टतया हत्या का कारण जमीन और मकान विवाद बताया जा रहा है। मामला अयोध्या कोतवाली के रायगंज चौकी क्षेत्र का है। जहां चरण पादुका आश्रम स्थित गोशाला में रविवार की सुबह नागा साधु कन्हैया दास 45 वर्ष चेला स्व. रामबरन दास निवासी गुलचमन बाग हनुमानगढ़ी थाना



रामजन्मभूमि का शव देखा गया जो खून से लथपथ रहा, जिसका सिर ईंट से कूचा गया था। स्थानीय साधुओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी। देखते ही देखते काफी संख्या में नागा साधु वहां इकट्ठा हो गए। एसपी सिटी,

नई दिल्ली (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर नक्सलियों के साथ हुए एनकाउंटर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम का चुनावी दौरा बीच में छोड़ दिया है। वह वापस दिल्ली लौट रहे हैं, जहां पर वे हालात का जायजा लेंगे। शाह इस समय असम में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली वापस लौटने से पहले गुवाहाटी में नक्सली हमले को लेकर कहा कि सर्व ऑपरेशन जारी है। दोनों ही पक्ष हताहत हुए हैं। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता



हूं। मैं उनके परिवार वालों को भरोसा दिलाता हूं कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके अलावा, अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षाबलों के शहीद होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रविवार को बात की और हालात का जायजा लिया। शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के

महानिदेशक कुलदीप सिंह को स्थिति का जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ जाने को कहा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री ने बघेल से बात की और मुठभेड़ के बाद पैदा हुई स्थिति की जायजा लिया। इस संबंध में एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को मुठभेड़ के बाद

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में बीजापुर और सुकमा जिलों की सीमा के बीच एक जंगल में नक्सलियों के साथ शनिवार को हुई मुठभेड़ में 23 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। इससे पहले, अमित शाह ने टवीट किया था कि मैं छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए हमारे वीर सुरक्षाकर्मीयों के बलिदान को नमन करता हूं। राष्ट्र उनके शौर्य को कभी नहीं भूलेगा। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हम शांति और प्रगति के इन दुश्मनों (नक्सलियों) के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

## दिल्ली में 80,000 से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड-19 के टीके

नयी दिल्ली (एजेंसी)। तीन अप्रैल दिल्ली में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। शनिवार को 80,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए, जो अब तक की सबसे अधिक दैनिक संख्या है। टीका लेने वालों में से आधे से अधिक लोग 45-59 आयु वर्ग के हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शाम छह बजे तक टीका लगवाने वालों की संख्या 80,797 थी, जिसमें 72,232 लोगों को टीके की पहली खुराक मिली। साठ वर्ष की आयु वर्ग के 21,432 लोगों और 45-59 वर्ष की आयु वर्ग के 45,787 लोगों को पहली खुराक दी गई। कुल 8,565 लाभार्थियों को टीके की दूसरी खुराक मिली। आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को टीका लगाने वालों में 3,131 अग्रिम मोर्चे के कर्मचारी और 1,882 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। टीकाकरण के बाद इसके प्रभाव का कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया, केवल तीन लोगों ने मामूली दुष्प्रभाव की शिकायत की। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सिन की पहली खुराक ली। सिसोदिया ने केंद्र सरकार से इसके लिए उच्च सीमा हटाकर सामूहिक टीकाकरण की अनुमति देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को हराने के लिए सभी लोगों का टीकाकरण महत्वपूर्ण है।



## मुस्लिम समाज पीएम की नीतियों से खुश: नकवी

नयी दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कांग्रेस पर धर्मनिरपेक्षता को "वोट हाइजैक करने की मशीन" के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा "सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी" है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता के नायक" हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को अपना समर्थन दे रहा है और धीरे-धीरे भाजपा से जुड़ रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने असम और पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी

की जीत की उम्मीद जताई तथा आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम में एआईयूडीएफ, पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) और केरल में आईयूएमएल से जो समझौता किया है, उससे साफ है कि कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों के लिए धर्मनिरपेक्षता सिर्फ "वोट कैचिंग मशीन" है और वोट "हाइजैक



करने की मशीन" है। अब ये बेनकाब हो चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस अलग-थलग पड़ती जा रही है।" नकवी ने कहा, "हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता समावेशी विकास की प्रतिबद्धता है। धर्मनिरपेक्षता भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए संवैधानिक

संकल्प भी है और मिशन भी है। कोई भी नहीं कह सकता कि मोदी सरकार ने किसी के साथ कोई भेदभाव किया है।" उन्होंने कहा, "भाजपा सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। इससे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी कोई नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्षता

के प्रति हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता के नायक हैं।" नकवी ने प्रधानमंत्री के 2014के एक भाषण का उल्लेख करते हुए कहा, "शपथ लेने से पहले मोदी जी ने संविधान के सामने सिर झुकाकर कहा था कि जिसने वोट दिया और जिसने नहीं दिया, हमारे लिए सब बराबर है। इससे बड़ी समावेशी और धर्मनिरपेक्ष सोच नहीं हो सकती।" केंद्रीय मंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा, "चुनावी राज्यों में मोदी जी के प्रति मुसलमानों का बहुत ही मजबूत समर्थन दिखाई पड़ रहा है। सभी इस बात से संतुष्ट हैं कि मोदी के रहते समाज का कोई भी हिस्सा अयुक्त नहीं है।

## खबर छापने को लेकर पत्रकार को मिली जान से मारने को धमकी

अमित रेखा—इमामुद्दीन कोकिल पट्टी—कुशीनगर। देश के विभिन्न राज्यों में पत्रकारों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ताजा मामला कुशीनगर जिले का है। बरवापट्टी थाना क्षेत्र के पिपरही(कांही टोला) के उमेश कुशवाहा और उसकी पत्नी संगीता कुशवाहा के बीच कुछ दिनों से आपसी तनाव चल रहा था। जिससे उमेश कुशवाहा की पत्नी संगीता कुशवाहा का आरोप है कि मेरे नाम एक मारुति कार जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या यूपी 0 57 जेड 1661 है जिसको कूट उचित पेपर व फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बिना प्रार्थी के अनुमति से उपरोक्त कार को उमेश कुशवाहा अपने नाम से करा लिया है। इसकी सूचना संगीता कुशवाहा सहायक परिवहन अधिकारी पडरौना को दिया और इमामुद्दीन पत्रकार जो हिन्दी दैनिक अमित रेखा से खबर लिखते हैं उनको दिया कि आप इसका खबर लिख दीजिए। जब इमामुद्दीन पत्रकार उमेश कुशवाहा के पास फोन किया कि क्या यह सब सही है तो वह बोला कि अगर मेरे खिलाफ पेपर में लिखोगे तो तुमको जान से मार दूंगा। और पत्रकार के मोबाइल पे उल्टा सीधा गाली देकर और धमकी देकर भेज रहा है।

## 'एक अदद अवैध तमंचे व 02 अदद कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार'

अमित रेखा अयोध्या। शैलेश पाण्डेय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद—अयोध्या द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामशैलेन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी रुदौल राकेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 03.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा के कुशल निर्देशन में उ०नि० द्विवेश त्रिवेदी द्वारा मय पुलिस बल के इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प एवं कर्बला के पास बहद ग्राम हलीमनगर से 01 अदद अवैध तमंचे 315 बोर व 02 अदद कारतूस 315 बोर के साथ शातिर अपराधी 1.शकील उर्फ सुक्रील पुत्र कुतुन को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 155६21 धारा 3६25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया।

## पंचायती चुनाव नामांकन के दौरान ब्लाक पर चौकस पुलिस

शक्ति ओम सिंह ब्यूरो गोरखपुर। विकास खण्ड खजनी में पंचायती चुनाव पर नामांकन कार्य दूसरे दिन बड़े भीड़ के बीच प्रारम्भ हुआ। खजनी ब्लाक पर खजनी सीओ इंदु प्रभा सिंह के कुशल मार्ग दर्शन में थानाध्यक्ष मृत्यंजय राय रोड पर मार्च करते नजर आ रहे हैं।



ब्लाक के 200 मीटर की दूरी पर दो बैरियर बनाये गए हैं। जहां फोर्स तैनात है, जहां जलूस लेकर आ रहे भावी प्रत्यासियों का जत्था रोक दिया जा रहा है। ब्लाक गेट पर एसएसआई प्रदुम्न सिंह उपनिरीक्षक शतीस कुमार कांस्टेबल कमल कुमार शुक्ल, अनुराग यादव, महिला कांस्टेबल दीपिका सिंह मुस्तैद हैं। सभी प्रत्यासियों व प्रस्तावकों व सदस्यों के गहन चेंकिंग की जा रही है। विकास खण्ड खजनी में शांतिमय माहौल में नामांकन प्रक्रिया सुबह आठ से खरम है, शाम 5 बजे तक नामांकन होना है। आज अंतिम दिन नामांकन के दौरान रोड पर चहल पहल सर्वाधिक है। पुलिस सक्रियता के वजह से नामांकन स्थली से 200 की दूरी पर शान्ति मौहाल बना हुआ है। जिससे सुचारु रूप से नामांकन प्रक्रिया की जा रही है।

## पोते ने पेंशन के लालच में दादी को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

अमित रेखा ब्यूरो महाराजगंज। महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र के भारीवैसी गांव में रिश्तो का सर्मसार करने वाला एक घटना उस समय सामने आया जब कलयुगी पोते ने पेंशन के पैसे लेने को लेकर अपनी दादी को लाठी और डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। बुरी तरह जख्मी 70 वर्षीय सहोदरा देवी को आनन फानन में परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैपियरगंज ले गए जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वही दादी की मौत के बाद आरोपी पोता मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पोते के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने



बताया कि भारीवैसी गांव में आज 70 वर्ष सहोदरा देवी जो वृद्धा पेंशन पाती थी जिसको उसके पोते जो शराब का नशा करने के लिए पेंशन के पैसे को लेने को लेकर दादी से विवाद कर लिया और और अपनी ही दादी को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर अधमरा कर मौत के घाट उतार दिया।

## आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के प्रभावी नियंत्रण हेतु गठित की गई निगरानी समिति

### 'राहत आयुक्त उ०प्र० शासन द्वारा क्या करें-क्या न करें, जारी की गई एडवाइजरी'

अमित रेखा — निखिल कुमार / स्वतंत्र कसया — कुशीनगर। वर्तमान समय में हो रही आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी विद्यवासिनी राय ने बताया कि विशेष निगरानी किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है, जो जनपद स्तर एवं तहसील स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी नामित करने एवं बैठक का साप्ताहिक अनुश्रवण किये जाने का निर्देश दिए गए हैं। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद स्तर पर गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सदस्य, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य, अपर जिलाधिकारी सदस्यनोडल अधिकारी, सीएमओ सदस्य, उप

### कलेक्ट्रेट सभागार में जौनलधेक्टर मजिस्ट्रेट व आरो/एआरो

को प्रशिक्षण में सम्बोधित किए जिलाधिकारी अमित रेखा ब्यूरो महाराजगंज। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी डा० उज्ज्वल कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत को निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराये जाने के फल स्वरूप जौनलधेक्टर व आरो,एआरो की प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्बोधित किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि अपने डियूटी के प्रति सलग्न होकर कार्य करें। डियूटी कटवाने के



चक्कर में न रहे, किसी की डियूटी नहीं कटनी है। यह राष्ट्रीय कार्य है अपने दायित्वों को समझें और लगन से कार्य करें। किसी भी प्रोटोकल ब्यक्ति के कहे में ऐसा कार्य न करें जिससे परेशानी में पड़े। अभी नामांकन पत्र भरे जायेगे जिसमें 7 प्रश्न संगलन होगे सभी प्रश्नों की गहन जाच होनी है तथा आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। चुनाव आयोग की गाइड लाईन के अनुसार ही कार्य करेंगे। लाइड लाईन में कोई बात समझ में नहीं आती है तो उच्चाधिकारियों से सम्पर्क कर निस्तारण करें। एक प्रत्याशी एक पद हेतु चार नामांकन निर्देशन भर सकता है प्रत्याशी नामांकन पत्र,श्रेणी में समक्ष अधिकारी की प्रमाण पत्र,श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र,घोषणा पत्र,अनुलनक अर्देयता प्रमाण पत्र, जमानत राशि प्रमाण पत्र,मतदाता सूची रक्षप्रमाणित होना आवश्यक है। अनर्हताउ०३१ 21 साल से नीचे व किसी ताम पद के प्रत्याशी नहीं होगे। प्रशिक्षण में मुख्य विकास अधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल,ज्वॉइन्ट मजिस्ट्रेट तेजा साई सिलम,अपर एसडीएम अविनाश कुमार, पी डी,डीडीओ,सहित सभी जौनलधे सेक्टर मजिस्ट्रेट,आरोधएआरो उपस्थित रहे।

## नारायणी नदी भैसहां के पास पीपा पुल ६ वस्त होने के कगार पर दुर्घटना की आशंका नारायणी नदी भैसहां के पास पक्का पुल न होने से लोगों को हो रही दिक्कत

अमित रेखा — रामाशंकर सिंह कुशीनगर। कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील अन्तर्गत भैसहां के पास नारायणी नदी पर लम्बे समय



से पीपा पुल बनाने की मांग इस समय जोर पकड़ती जा रही है। भैसहां के पास नारायणी नदी पर पक्का पुल बनाने की विचारधारा को जन जन तक ले जाने का कार्य एक दशक से शुरू हुआ था जो आरम्भ में शैशन अवस्था था लेकिन आज यह विचारधारा जन जन की आवाज बन चुका है। बताते चलें कि भैसहां के नारायणी नदी पर जो जनपदों को जोड़ने वाले पीपा का पुल ६ वस्त होने के कगार पर है जिससे

को सही करवाना सुनिश्चित राहत आयुक्त उ० प्र० शासन द्वारा रसोई घर यदि फुस की है तो दीवाल पर मिट्टी का लेप करें, रसोई घर की छत ठेकी रखी जाए, आग बुझाने हेतु घर में बोरे भरकर बालू या मिट्टी तथा दो बाट्टी पानी रखें, हवन आदि का काम सुबह 9 बजे से पहले खत्म कर लें, शार्ट सर्किट की आग से बचने के लिए विजली वायरिंग की मरम्मत करवा लें, मवेशियों को वचाने के लिए घर के पास पर्याप्त पानी व निगरानी करते रहें, पटाखे जलाते समय पानी की बाट्टी व रेत की व्यवस्था कर लें, गर्मियों में सुबह का भोजन 9 बजे से पूर्व व शाम का भोजन 6 बजे के बाद बनाये, वच्चों का सतत निगरानी रखे, आग लगने पर सर्वप्रथम जन समुदाय के सहयोग से बुझाने का प्रयास करें, आग बुझाने हेतु फायर ग्रेड

## मानक विहीन और अगुणवत्ता के साथ हो रहा सड़क का निर्माण

### काम रुकवा कर ग्रामीणों ने किया विरोध जेई से मांगा जवाब

अमित रेखा—निखिल कुमार / स्वतंत्र कसया — कुशीनगर। जनपद के कसया विकासखंड के ग्राम सभा कुडवा दिलीप नगर के गुरमिया अपरूप डोले से पीच सड़क का निर्माण कार्य पिछले कुछ दिनों से चल रहा है जो लोक निर्माण से प्रस्तावित होकर गुरु मियां चौराहे से गुरमिया बिन टोली तक बन रहा है जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार के द्वारा मानक विहीन और और गुणवत्ता के साथ कार्य कराया जा रहा है सुबह चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठा होकर निर्माण कार्य को देखकर आपस में एकजुट होकर कार्य को रुकवा दिया और मजदूरों को काम से हटाकर काम बंद करने को कहा गया मिली जानकारी के मुताबिक विगत कई दिनों से पिच सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था जिसमें ठेकेदार अपनी मनमानी

### जनपद स्तरीय पद कंडूक क्रीडा प्रतियोगिता एवं होनहार खिलाड़ियों का चयन आरंभ

अमित रेखा — कृष्णा यादव तरया सुजान — कुशीनगर। कुशीनगर जनपद स्तर पर जनपद के खिलाड़ियों का फुटबॉल प्रतियोगिता में खेल के माध्यम से चयनित किया जाएगा जो खिलाड़ी कुशीनगर जनपद के इच्छुक हो तो अपनी टीमों को लेकर 6 अप्रैल को फतेह मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज के खेल मैदान में पहुंच कर प्रतियोगिता में भाग लें दोपहर 4 बजे से खेल आरंभ होगा जनपद के फुटबॉल संघ के अध्यक्ष भीम प्रसाद गुप्ता युक्त जानकारी देते हुए बताया कि जनपद की चयन समिति के सभी सम्मानित सदस्य इस प्रतियोगिता में उपस्थित रहेगे, खिलाड़ियों का खेल देखने के बाद जनपद स्तर पर उनका चयन किया जाएगा वही खिलाड़ी आगे चलकर मंडल स्तर पर फुटबॉल खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे जिस में चयनित होने के बाद उत्तर प्रदेश लेवल पर प्रतियोगिताएं आरंभ होगी। फुटबॉल खेल के आयोजक जनपद फुटबॉल संघ के पदाधिकारी भीम प्रसाद गुप्ता ने जनपद की सभी फुटबॉल खिलाड़ियों का इस प्रतियोगिता में आमंत्रित किया है।

## ग्राम प्रधान प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद गुप्ता के जन सम्पर्क के दौरान उमड़ा ग्राम वासियों का जनसैलाब'

अमित रेखा राजा कुमार तरकुलवा देवरिया। विकाश खंड तरकुलवा के अंतर्गत ब्लाक तरकुलवा के ग्राम पंचायत नरहर पट्टी सरैनी में आज बहुत ही सुन्दर कार्य देखने को मिला है एक तरफ तो ग्राम प्रधान प्रत्याशी या जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी हो एक से एक बादे कर



जनता को लुभाने का कार्य रहें है तो एक तरफ दारु और मुग बाट रहे है तो यही इन सब से अलग हट के अपनी अच्छी छवि से जाने वाले प्रत्याशी तथा सबके चहेते आज बहुत ही सुन्दर तस्वीर सामने देखने को मिल रही है सबके दिलो पर राज कर रहे कन्हैया प्रसाद गुप्ता सबके दुख सुख में कदम से कदम मिला कर चलने वाले तरकुलवा के ग्राम पंचायत नरहर पट्टी सरैनी के प्रधान पद प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद गुप्ता के समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा था जैसे माने जा रहा है कि नरहर पट्टी सरैनी के जनता ने कन्हैया प्रसाद गुप्ता को प्रधान बनाने का संकल्प बना ली है जनता का कहना है कि हमें नेता नहीं बेटा चाहिए जो हमेशा हमारे दुख सुख में काम आए और यही गुड हमें कन्हैया प्रसाद गुप्ता में दिख रहा है इस बार हमें किसी के वहकाए में नहीं आनी है इस लिए इस हम ने नेता नहीं बेटा चुना है बीच वहा पर मौजूद रहे ग्राम पंचायत नरहर पट्टी सरैनी के पूर्व ग्राम प्रधान बसंती प्रसाद गुप्ता पूर्व ग्राम प्रधान हंसराज गौड़, भीम गुप्ता उर्फ अरुण गुप्ता, मोती भगत, केदार कुशवाहा, अर्जुन गुप्ता, चंद्रकेश कुशवाहा एडवोकेट, आदि सभी नरहर पट्टी सरैनी के लोग रहे मौजूद।

## मानक विहीन और अगुणवत्ता के साथ हो रहा सड़क का निर्माण

### काम रुकवा कर ग्रामीणों ने किया विरोध जेई से मांगा जवाब

देती है वही ऐसे ठेकेदार और गुणवत्ता और मानक विहीन तरीके से कार्य करा कर पैसे के हिसाब से कार्य कराने का आवेदन किया इसमें मौजूद रहे लोग जितेंद्र कुशवाहा पूर्व



लेते हैं और जनता और सरकार को बेवकूफ बनाते हैं इस पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर ठेकेदार और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्य को बंद करा कर सही और मानव

## पुलिस क्षेत्राधिकारी ने थाना परिसर में चलाया सफाई अभियान

अमित रेखा ब्यूरो महाराजगंज। महाराजगंज जिले के फरेंदा पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील दत्त दुबे के नेतृत्व में थाना परिसर, बैरिक व मेस को कूड़ा विहीन करने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ की साफ — सफाई अभियान का मकसद संक्रमण को रोकना रोग से निजात पाने के लिए साफ सफाई ही विशेष उप कारक है। साफ सफाई से संक्रमण को रोका जा सकता है। इसी उद्देश्य से फरेंदा पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील दत्त दुबे के नेतृत्व में फरेंदा थाना प्रभारी निरीक्षक गिरजेश उपाध्याय सहित सभी कर्मचारी साफ सफाई पर विशेष जोर दिए। थाना परिसर की साफ सफाई के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी ने अभियान चलाकर थाना परिसर की साफ—सफाई उनके साथ कोतवाल गिरेश उपाध्याय भी थाने की सफाई किए। थाना परिसर में कूड़ा करकट को इकट्ठा कर नष्ट किए। थाना परिसर के इर्द—गिर्द जो गड्ढा था उसे भी मिट्टी डाल कर बराबर किया गया ताकि बरसात का पानी इकट्ठा ना हो जब पानी इकट्ठा होता है तो उस पर तमाम मच्छर बैठते हैं उन्हीं मादा मच्छर के काटने से मलेरिया डेंगू आदि बुखार होता है इसी से निजात पाने के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी ने अभियान चलाए। उनके साथ कोतवाल निरीक्षक गिरजेश उपाध्याय और तमाम



# अक्षर पटेल कोविड-19 से संक्रमित, सीएसके के खिलाफ नहीं खेलेंगे मैच

नयी दिल्ली। भारत और दिल्ली कैपिटल्स के आलराउंडर अक्षर पटेल को कोविड-19 के परीक्षण में पॉजिटिव पाया गया है और पृथकवास नियमों के कारण वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 10 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ टीम के पहले मैच को नहीं खेल पायेंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को बताया कि अक्षर को पृथकवास में रखा गया है। फ्रेंचाइजी से जारी बयान के मुताबिक, "दिल्ली कैपिटल्स के आलराउंडर अक्षर पटेल को कोविड-19 के लिये पॉजिटिव पाया गया है। वह नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 28 मार्च 2021 को मुंबई में टीम होटल में पहुंचे थे। कोविड परीक्षण की उनकी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है।" इसमें कहा गया है, "उन्हें निर्दिष्ट चिकित्सा सुविधा में

पृथकवास पर भेज दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स की चिकित्सा टीम अक्षर से लगातार संपर्क बनाये हुए है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।" आईपीएल के नियमों के मुताबिक अक्षर को 10 दिनों तक अनिवार्य पृथकवास में रहना होगा। टीम से जुड़ने के लिए उन्हें पृथकवास के आखिरी दो दिनों में आरटी-पीसीआर जांच में नेगेटिव आना होगा। उनका पृथकवास 12 अप्रैल को खत्म होगा ऐसे में वह सीएसके के खिलाफ 10 अप्रैल को होने वाले पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। दिल्ली का दूसरा मैच 15 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है जिसमें उनके खेलने की संभावना कम है। नियमों के मुताबिक पृथकवास के नौवें और 10वें दिन खिलाड़ी को आरटी-पीसीआर जांच में नेगेटिव आना होगा, जिसके बाद वह बायो-बबल (जैव सुरक्षित माहौल) में टीम के साथ जुड़



सकता है। बीमारी से उबरने के बाद टीम से जुड़ी गतिविधियों को

शुरू करने से पहले खिलाड़ी को कार्डिएक स्क्रीनिंग (हृदय संबंधी

जांच) से गुजरना होगा। अक्षर ने हाल में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट

श्रृंखला में 27 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था।

## सक्षिप्त



### हमने लगभग सभी कमजोरियों की भरपाई की: CSK बल्लेबाजी कोच माइकल हसी

मुंबई। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने शनिवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सत्र के लिए फ्रेंचाइजी सभी खामियों को दूर कर पिछले सत्र के खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़कर नयी शुरुआत करेगी। तीन बार की यह चैंपियन टीम यूएई में खेले गये 2020 आईपीएल में सातवें पायदान पर रही थी। आईपीएल इतिहास में यह पहली बार था जब यह टीम प्लेऑफ में पहुंचने में नाकाम रही थी। सीएसके की वेबसाइट के मुताबिक हसी ने कहा, "मुझे लगता है कि हमारे पास एक बहुत ही संतुलित टीम है, जिसमें हमने ज्यादातर खामियों को दूर किया है और हर विभाग में विकल्प मौजूद है। खिलाड़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं।" हसी ने कहा कि सीएसके के पास एक बहुत ही संतुलित टीम है, जिसमें मोईन अली, के. गौतम और रोबिन उथ्पा जैसे शानदार खिलाड़ी जुड़े हैं। हसी ने कहा, "मुझे लगता है कि टीम के साथ जुड़ने वाले ये सभी शानदार खिलाड़ी हैं। मोईन एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, रोबिन के पास बहुत अनुभव है और गौतम प्रतिभावान हैं जिन्हें हम आगे और विकसित कर सकते हैं।" फ्रेंचाइजी ने फरवरी में हुई नीलामी में मोईन और गौतम को बड़ी बोली के साथ टीम से जोड़ा जबकि रोबिन उथ्पा को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया गया था। हसी ने कहा कि आगामी आईपीएल में अच्छी शुरुआत करना बेहतर होगा क्योंकि इससे खिलाड़ी फिर आत्मविश्वास के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा, "हमारे लिए टूर्नामेंट में बेहतर शुरुआत करना अच्छा होगा क्योंकि खिलाड़ी तब आराम से आत्मविश्वास के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलेंगे। ऐसा नहीं होने पर खिलाड़ी दबाव में आ सकते हैं।" उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि शुरुआत में मुंबई में कुछ मैच खेलने से खिलाड़ियों को फायदा होगा और टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।" उन्होंने कहा, "वानखेड़े में स्थितियां आम तौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए उम्मीद है कि हम अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और खिलाड़ी अपने खेल को लेकर अच्छा महसूस करेंगे।" चेन्नई की टीम आईपीएल के 14वें सत्र में 10 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने अभियान को शुरू करेगी। टीम को अपने शुरुआती पांच मैच मुंबई में खेलने हैं।

### KKR के बल्लेबाज नीतिश राणा का कोविड-19 टेस्ट आया नेगेटिव, अभ्यास सत्र में जुड़े

मुंबई। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज नीतिश राणा लगातार दूसरे दिन कोविड-19 जांच में नेगेटिव आने के बाद यहां अभ्यास सत्र में टीम के साथियों से जुड़ गये। राणा मुंबई में पहुंचने के एक दिन बाद 22 मार्च को कोविड-19 जांच में पॉजिटिव आये थे जिसके बाद इस 27 साल के खिलाड़ी का पृथकवास बढ़ाकर 12 दिन तक कर दिया गया। बीसीसीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बाद राणा 11वें और 12वें दिन तक दो नेगेटिव जांच आने तक अपने कमरे में ही रुके रहे। राणा ने कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा जारी वीडियो में कहा, "अंत में मैं अब बाहर आ गया हूँ और अब मैं बिलकुल ठीक हूँ। अभ्यास का यह मेरा पहला दिन था और मैंने थोड़ी बल्लेबाजी भी की। केकेआर टीम के साथियों के साथ आज जुड़कर काफी खुश हूँ।" उन्होंने कहा, "कृपया एहतियात बरतिये और इसे (कोविड-19) को हलके में मत लीजिये। आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा इसलिये अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिये। सुरक्षित रहिये।" राणा ने संयुक्त अरब अमीरात में हुए आईपीएल के 2020 सत्र के 14 मैचों में 352 रन बनाये थे। हाल में समाप्त हुई विजय हजारे ट्रॉफी वनडे में राणा दिल्ली के लिये सर्वाधिक रन जुटाने वाले खिलाड़ी रहे थे जिसमें उन्होंने सात मैचों में 66.33 के औसत से 398 रन बनाये। यह देखना होगा कि राणा 11 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सत्र के शुरुआती मुकाबले में केकेआर के लिये खेलने के लिये फिट होंगे या नहीं।

### दिल्ली कैपिटल्स को लगा बड़ा झटका, अक्षर पटेल कोविड-19 से संक्रमित


नयी दिल्ली। भारत और दिल्ली कैपिटल्स के आलराउंडर अक्षर पटेल को कोविड-19 के परीक्षण में पॉजिटिव पाया गया है और उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को जारी बयान में कहा, "दिल्ली कैपिटल्स के आलराउंडर अक्षर पटेल को कोविड-19 के लिये पॉजिटिव पाया गया है। वह नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 28 मार्च 2021 को मुंबई में टीम होटल में पहुंचे थे। कोविड परीक्षण की उनकी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है।" इसमें कहा गया है, "उन्हें निर्दिष्ट चिकित्सा सुविधा में पृथकवास पर भेज दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स की चिकित्सा टीम अक्षर से लगातार संपर्क बनाये हुए है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।" अक्षर ने हाल में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में 27 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था। वह आईपीएल में खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं जिनका परीक्षण पॉजिटिव आया है। उनसे पहले कोलकाता नाइटराइडर्स के नीतिश राणा की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी थी। बाद में उनकी रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आ गयी थी। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स की मीडिया टीम में एक सदस्य का परीक्षण पॉजिटिव पाया गया है। यह सदस्य हालांकि जैव सुरक्षित वातावरण का हिस्सा नहीं था और इसलिए टीम का अभ्यास कार्यक्रम प्रभावित नहीं हुआ।

### ईस्टर से पहले श्रीलंका में गिरजाघरों की सुरक्षा कड़ी की गई

कोलंबो। श्रीलंका में रविवार को ईस्टर से पहले गिरजाघरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यह जानकारी शनिवार को पुलिस ने दी। अप्रैल 2019 में ईस्टर के दिन देश में पर्यटकों और अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय पर समन्वित हमले के आलोक में इस वर्ष सुरक्षा कड़ी की गई है। हमले में 270 लोगों की मौत हो गई थी। वरिष्ठ पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस प्रवक्ता अजित रोहाना ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हमने 12 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर गिरजाघरों की सुरक्षा कड़ी कर दी है।"

## सनराइजर्स हैदराबाद को मध्यक्रम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

पिछले टूर्नामेंट में टीम को हालांकि अनुभवहीन मध्यक्रम का नुकसान हुआ था क्योंकि टीम प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद जैसे खिलाड़ियों पर निर्भर थी।



नयी दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सबसे अधिक निरंतर प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक सनराइजर्स हैदराबाद टूर्नामेंट के आगामी सत्र में मध्य क्रम की बल्लेबाजी में सुधार के इरादे से उतरेगा। डेविड वार्नर की अनुआई में 2016 में अपना एकमात्र आईपीएल खिताब जीतने के बाद से सनराइजर्स की टीम ने हमेशा प्ले आफ में

जगह बनाई है लेकिन खिताब जीतने में नाकाम रही। टीम को 2017 में एलिमिनेटर में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा जबकि इसके अगले साल हैदराबाद की टीम फाइनल में से उतरेगा। डेविड वार्नर की अनुआई में 2016 में अपना एकमात्र आईपीएल खिताब जीतने के बाद से सनराइजर्स की टीम ने हमेशा प्ले आफ में

### कोलकाता में चप्पल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी के बीच राजधानी कोलकाता में आग लगने का सिलसिला जारी है। शनिवार के तड़के एक बार फिर कोलकाता में प्लास्टिक के चप्पल बनाने वाली कारखाने में आग लग गयी। इस घटना के कारण इलाके में अफरा-तफरी मच गयी। घटना की सूचना पाकर स्थानीय थाने की पुलिस, 10 दमकल मौके पर पहुंचे और आग को नियंत्रित किया। पुलिस तथा दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह 5 बजे तपसिया थानांतर्गत तपसिया रोड इलाके में प्लास्टिक की चप्पल बनाने वाले कारखाने शमीना प्लास्टिक में अचानक आग जहां लगा थी, वहां घनी आबादी थी, इस बाबत दमकल इंजन को मौके तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। करीब दो घंटों की कड़ी मशकत के बाद सुबह 7 बजे आग को काबू कर लिया गया। हालांकि दोपहर तक वहां कूलिंग डाउन का काम चल रहा था। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं आग कैसे लगी, इसका पता नहीं चल पाया है। दमकल सूत्रों की मानें तो शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। हालांकि आग लगने के सही कारणों को जानने के लिए मौके पर फॉरेंसिक की टीम बुलायी जायेगी। मालूम हो कि शनिवार को भी एक के बाद एक, दो जगहों पर आग लगी थी। इससे पहले 8 मार्च को हेयर स्ट्रीट थानांतर्गत स्टैंड रोड इलाके में ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर में आग लगी थी जहां 4 दमकल अधिकारी सहित 9 लोगों की मौत हो गयी थी।

## मैं पावर हिटर नहीं लेकिन विराट और रोहित जैसे खिलाड़ियों से सीखने की कोशिश करता हूँ: पुजारा

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ क्रमशः एलिमिनेटर और दूसरे क्वार्टरफाइनल में हार झेलनी पड़ी। टीम ने 2021 सत्र के लिए अपने मुख्य खिलाड़ियों को रिटैने किया है और यही कारण है कि इस साल आईपीएल नीलामी में टीम काफी सक्रिय नहीं थी और उसने सिर्फ कुछ बैकअप खिलाड़ियों को खरीदा। पिछले टूर्नामेंट में टीम को हालांकि अनुभवहीन मध्यक्रम का नुकसान हुआ था क्योंकि टीम प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद जैसे खिलाड़ियों पर निर्भर थी। टीम के मजबूत पक्षों की बात करें तो टीम का संतुलन उसका सबसे मजबूत पक्ष है विशेषकर शीर्ष क्रम। टीम के पास डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टों, जेसन रॉय, केन विलियमसन, मनीष पांडे और रिद्धिमान साहा जैसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने में सक्षम हैं। वार्नर और बेयरस्टों की सलामी जोड़ी आईपीएल की सबसे खतरनाक जोड़ियों में से एक है। जेसन रॉय भी अंतिम एकादश में जगह बनाने के दावेदार हैं।

चेन्नई। टेस्ट विशेषज्ञ के रूप में चेतेश्वर पुजारा की प्रतिष्ठा के कारण पिछले कुछ साल में उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन तीसरे नंबर पर खेलने वाला यह भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों से सबक सीखने के बाद अब आगामी सत्र में चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) की ओर से छाप छोड़ने को बेताब है। कई वर्षों तक आईपीएल नीलामी में नहीं बिकने वाले पुजारा को इस साल सीएसके ने 50 लाख रुपये के उनके आधार मूल्य पर खरीदा और वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप के प्रति बदली मानसिकता और रवैये के साथ खेलने के लिए तैयार हैं। पावर हिटर (बड़े शॉट खेलने वाला खिलाड़ी) नहीं होने के कारण हमेशा पुजारा के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठते रहे हैं और उन्होंने कहा कि वह इसमें सुधार के लिए राष्ट्रीय टीम के अपने कप्तान कोहली और उप कप्तान रोहित की तरह टाइमिंग पर निर्भर करेंगे। पुजारा ने 'ईएसपीएनक्रिकइंफो' से कहा, "जब बात स्ट्राइक रेट की आती है तो हां, मैं सहमत हूँ कि मैं पावर हिटर नहीं हूँ। लेकिन साथ ही आप विराट जैसे खिलाड़ियों से सीखते हैं। रोहित, वह पूरी तरह से पावर हिटर नहीं है लेकिन गेंद को सबसे अच्छी टाइमिंग के साथ मारने वाले खिलाड़ियों में से एक है जिन्हें सीमित ओवरों के प्रारूप में मैंने देखा है।" यहां तक कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन से भी सीख ली जा सकती है क्योंकि वह सभी तरह के क्रिकेट शॉट खेलते हैं। पुजारा ने कहा, "आप केन विलियमसन जैसे खिलाड़ियों से सीखते हो। यहां तक कि स्टीवन स्मिथ से भी। ये सभी सिर्फ अच्छे क्रिकेट शॉट खेलकर रन बनाते हैं और साथ ही कुछ नया करने की कोशिश भी करते हैं।" उन्होंने कहा, "मेरी भी यही मानसिकता है कि अगर मुझे सफल होना है तो मुझे भी कुछ नया करना होगा लेकिन साथ ही आप सटीक क्रिकेट शॉट खेलकर भी रन बना सकते हो। आपको अपने शॉट को ताकतवर बनाने की जरूरत है, इससे इनकार नहीं करता लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि क्रिकेट की समझ ही आपका सबसे मजबूत पक्ष है।" इस 33 साल के खिलाड़ी ने स्वीकार किया कि अपने करियर के शुरुआती चरण में उन्हें लगता था कि टी20 क्रिकेट की जरूरत के अनुसार खेल में बदलाव से उनका टेस्ट क्रिकेट प्रभावित होगा लेकिन अब ऐसा नहीं है। पुजारा ने कहा कि उन्हें राहुल द्रविड की सलाह से भी मदद मिली।



## उत्पादकों के लिए घाटे का सौदा बना हुआ है प्राकृतिक गैस का उत्पादन : इक्रा

नयी दिल्ली। भारत में ज्यादातर क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का उत्पादन अपस्ट्रीम उत्पादकों के लिए घाटे का सौदा बना हुआ है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा कि सरकार द्वारा तय गैस के दाम अपने निचले स्तर पर बने हुए हैं और इससे उत्पादन पर नुकसान हो रहा है। एक अप्रैल से छह महीने के लिए घरेलू गैस का मूल्य 1.79 डॉलर प्रति इकाई (एमबीटीयू) तय किया गया है। नया रंगराजन फॉर्मूला लागू होने के बाद यह इसका सबसे निचला स्तर है। इसके अलावा गहरे पानी, अत्यधिक गहरे पानी, उच्च तापमान और उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से उत्पादित गैस मूल्य की अधिकतम सीमा अप्रैल-सितंबर, 2021-22 के लिए 3.62 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तय की गई है, जो अक्टूबर-मार्च, 2020-21 के लिए तय मूल्य सीमा 4.06 डॉलर प्रति इकाई से 10.8 प्रतिशत कम है। इक्रा ने कहा कि इससे ऐसी परियोजनाओं का विकास प्रभावित हो रहा है। इक्रा ने इसी सप्ताह सरकार द्वारा अधिसूचित गैस कीमतों पर टिप्पणी में कहा, "यह स्थिति घरेलू उत्पादकों के लिए प्रतिकूल है, लेकिन इससे गैस उपभोक्ताओं को फायदा होगा।" रेटिंग एजेंसी ने नोट

में कहा कि इतने कम दाम पर भारतीय अपस्ट्रीम उत्पादकों के लिए ज्यादातर क्षेत्रों से गैस उत्पादन घाटे का सौदा बना हुआ है। हालांकि, तेल क्षेत्र सेवाओं/उपकरण की लागत में इस दौरान कुछ कमी आई है। इक्रा ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट से गैस उत्पादकों की प्राप्ति कुछ बढ़ेगी, लेकिन इससे कम ही भरपाई हो पाएगी। इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (कॉरपोरेट क्षेत्र रेटिंग्स) स्वयंसाची मजूमदार ने कहा, "आगे चलकर अत्यधिक आपूर्ति की वजह से घरेलू गैस के दाम निकट से मध्यम अवधि में निचले स्तर पर बने रहेंगे। इससे घरेलू उत्पादकों के लिए प्राप्ति अच्छी नहीं रहेगी। हालांकि, इस दौरान ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपी जैसी कंपनियां गैस उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी।"

में कहा कि इतने कम दाम पर भारतीय अपस्ट्रीम उत्पादकों के लिए ज्यादातर क्षेत्रों से गैस उत्पादन घाटे का सौदा बना हुआ है। हालांकि, तेल क्षेत्र सेवाओं/उपकरण की लागत में इस दौरान कुछ कमी आई है। इक्रा ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट से गैस उत्पादकों की प्राप्ति कुछ बढ़ेगी, लेकिन इससे कम ही भरपाई हो पाएगी। इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (कॉरपोरेट क्षेत्र रेटिंग्स) स्वयंसाची मजूमदार ने कहा, "आगे चलकर अत्यधिक आपूर्ति की वजह से घरेलू गैस के दाम निकट से मध्यम अवधि में निचले स्तर पर बने रहेंगे। इससे घरेलू उत्पादकों के लिए प्राप्ति अच्छी नहीं रहेगी। हालांकि, इस दौरान ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपी जैसी कंपनियां गैस उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी।"





# श्रद्धा कपूर की 'चालबाज इन लंदन' का एलान

“पहली बार इस तरह के किरदार में दिखेंगी अभिनेत्री,,



श्रद्धा कपूर पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर नजर नहीं आई हैं। अब उनकी अगली फिल्म का एलान हो गया है। श्रद्धा कपूर फिल्म 'चालबाज इन लंदन' में मुख्य भूमिका में होंगी। खास बात ये है कि वह पहली बार इसमें डबल रोल निभाएंगी। फिल्म के निर्देशक पंकज पराशर हैं जिन्होंने 1989 में श्रीदेवी के साथ 'चालबाज' बनाई थी। इस फिल्म के निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अहमद खान और शायरा खान हैं। 'बागी 3' के बाद एक बार फिर से श्रद्धा कपूर और अहमद खान एक साथ काम करने वाले हैं। डबल रोल को लेकर उत्साहित हैं श्रद्धा फिल्म में काम करने को लेकर श्रद्धा काफी उत्साहित हैं। वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में श्रद्धा कपूर ने कहा कि 'मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि "चालबाज इन लंदन" के निर्माताओं ने मेरे बारे में सोचा। ये पहली बार है जब मैं डबल

रोल करूंगी और निश्चित रूप से यह किसी भी एक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण है। मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन मुझे खुशी है कि भूषण सर और अहमद सर को लगता है कि मैं इसमें सक्षम हो पाऊंगी। इसके साथ ही पंकज सर के साथ काम करने का यह मेरे लिए एक बेहतरीन अवसर और सीखने का अनुभव है।' निर्माताओं के शुक्रगुजार हैं पंकज पराशर निर्देशक पंकज पराशर कहते हैं कि 'स्क्रीन पर श्रद्धा एक जादू की तरह हैं। मुझे यकीन है कि वह डबल रोल में दर्शकों को बांधे रखेंगी। "चालबाज इन लंदन" के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं है। इसके साथ ही मैं भूषण कुमार और अहमद खान का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया।' श्रद्धा कपूर थीं पहली पसंद- भूषण कुमार फिल्म के निर्माता भूषण कुमार ने फिल्म के बारे में कहा कि "चालबाज इन लंदन" की कहानी कमाल की है। श्रद्धा के साथ

काम करने को लेकर हम काफी खुश हैं। वह बहुत प्रोफेशनल और काम को लेकर मेहनती हैं। इससे उनके साथ काम करना आसान हो जाता है इसलिए वह हमारी पहली पसंद हो जाती हैं। इसके अलावा वह इस किरदार में भी पूरी तरह फिट बैठती हैं। उन्हें दो अलग-अलग किरदार में देखना काफी रोचक होगा।' अहमद खान के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म के बारे में अहमद खान ने कहा कि 'चालबाज इन लंदन' मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। श्रद्धा एक शानदार अभिनेत्री हैं और अपनी कॉमिक टाइमिंग से वह दोनों ही किरदारों को वह बहुत अच्छे से निभा लेंगी। मुझे पता है श्रद्धा कितनी मजाकिया हो सकती हैं इसलिए वह हमारी पसंद हैं। भूषण जी के साथ काम करना हमेशा से अच्छा रहा है वह टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम के विजन का पूरी तरह समर्थन करते हैं।'

अक्षय कुमार को हुआ कोरोना,  
खुद को किया क्वारंटाइन




पूरे देश के साथ ही साथ बॉलीवुड पर भी कोविड का कहर जारी है। बीते कुछ दिनों में कई सितारे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और अब बॉलीवुड के खिलाड़ी अभिनेता अक्षय कुमार भी इसकी चपेट में आ गए हैं। इस बात की जानकारी खुद अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर दी है। कोरोना संक्रमित हुए अक्षय बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अक्षय ने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आज सुबह मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, मैंने खुद को तुरंत आइसोलेट कर लिया है। मैं होम क्वारंटाइन में हूँ और सभी जरूरी मेडिकल केयर ले रहा हूँ। जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं, वो जरूर अपना टेस्ट करवा लें। जल्दी ही वापस आऊंगा।' कई बॉलीवुड सितारे हुए शिकार बता दें कि बीते कुछ दिनों में कई सितारे कोविड की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि कई सेलेब्स ने कोरोना को मात दी है। कोविड संक्रमित सितारों में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, मिलिंद सोमन, आमिर खान, आर माधव, मनोज बाजपेयी, कार्तिक आर्यन, सिद्धांत चतुर्वेदी, तारा सुतारिया, रमेश तौरानी, बप्पी लाहिड़ी और सतीश कौशिक सहित कई सितारे शामिल हैं। अक्षय कुमार के प्रोजेक्ट्स गौरतलब है कि एक ओर जहां अक्षय, फिल्म राम सेतु के शूट में बिजी हैं तो दूसरी ओर वो फिल्म अतरंगी रे का शूट पूरा कर चुके हैं। अतरंगी रे में उनके साथ सारा अली खान और धनुष नजर आएंगे। इसके अलावा अक्षय की सूर्यवंशी भी रिलीज के लिए तैयार है। इन सभी फिल्मों के साथ ही अक्षय कुमार के पास पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, रक्षाबंधन और बेल बॉटम भी हैं।

## बेहद शरारती हैं जेनेलिया डिसूजा

जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियोज पोस्ट करते हैं। उनकी इंस्टाग्राम रील्स का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। अब जेनेलिया ने एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह कांची कौल के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं। जेनेलिया के हाथ में चोट है इसके बावजूद उनकी शैतानियों में कमी नहीं हो रही। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चोट के बावजूद मचाया धमाल जेनेलिया और रितेश बॉलीवुड के क्यूट कपल हैं। दोनों सोशल मीडिया पर अपने फैंस को खूब एंटरटेन करते हैं। दोनों के साथ में मजेदार वीडियोज उनके इंस्टाग्राम पर हैं। अब जेनेलिया ने टीवी एक्ट्रेस कांची कौल के साथ मजेदार वीडियो पोस्ट किया है। हैरानी की बात ये है कि बीते दिनों जेनेलिया के हाथ में चोट लगी थी जो कि ठीक नहीं हो पाई है। इसके बाद भी उनके जोश में कोई कमी नहीं दिखाई दी। वीडियो रितेश ने शूट किया है, इसके लिए कॉमेंट बॉक्स में जेनेलिया ने उनको मेशन करके थैंक यू भी कहा है। शेयर किया था एक्सीडेंट का वीडियो जेनेलिया बीते दिनों स्केटिंग सीखते वक्त गिर गई थीं, जिससे उनके हाथ में चोट आ गई थी। उन्होंने गिरने का वीडियो भी शेयर किया था। वीडियो के साथ पोस्ट में जेनेलिया ने बताया था कि वह बच्चों को कंपनी देने के लिए स्केटिंग सीख रही थीं लेकिन एक्सीडेंट हो गया।



## सनी लियोनी ने लाइट पर्पल ड्रेस में कराया ग्लैमरस फोटोशूट



बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी इंस्टाग्राम पर रोज कोई ना कोई नया धमाल मचाती रहती है। अपने इस नए फोटोशूट में सनी लियोनी लाइट पर्पल ड्रेस में कहर ढाती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में सनी ने हाथों में एक पर्स भी कैरी किया है, जिसको लेकर फैंस कई तरह के सवाल भी कर रहे हैं।



## थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा अवैध

### शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड़

'02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से निर्मित/अर्द्ध निर्मित शस्त्र, कारतूस एवं भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद'

अमितरेखा अयोध्या। पुलिस फतेहपुर श्री योगेन्द्र कुमार के अध्यक्ष बाराबंकी श्री यमुना पर्यवेक्षण में प्रमारी निरीक्षक प्रसाद द्वारा जनपद में अपराध फतेहपुर के नेतृत्व में दिनांक



पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ० अरुण सिंह के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी

04.04.2021 को मैनुअल इंस्ट्रुमेंट्स के आधार पर दो अभियुक्तों 1. मुस्तकीम पुत्र स्व० अब्दुल सत्तार निवासी ग्राम कुतबापुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, 2. योगेन्द्र कुमार उर्फ

## कुचायकोट प्रखंड के दो अलग-अलग स्थानों पर लगी भीषण आग

अमित रेखा-संतोष पाठक

कुचायकोट गोपालगंज। आग में एक जगह 50 एकड़ में खड़ी गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई तो वहीं दूसरे स्थान पर 7 घर जलकर राख हो गए पहली घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के उचकागांव व वृत्तिटोला चव्वर की है जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से



सर्किट से लगी आग से 50 एकड़ से ज्यादा गेहूं खड़ी फसल जल गई ग्रामीणों तथा फायर ब्रिगेड के अथक प्रयास के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे उचकागांव पंचायत के मुखिया भूपेंद्र चौबे, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि व माजपा नेता चंद्रमोहन पांडेय, पूर्व बीडीसी मुन्ना सिंह सहित अनेकों लोगों ने काफी प्रयास कर ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाया तो वहीं गोपालपुर थाना क्षेत्र के बलिखरेया गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से रविवार की दोपहर आग लग गई इस अगलगी की घटना में बलिस्टर नुनीय,बनसी नुनीय,तूफानी महतो,मनसी महतो,बलिस्टर महतो व ललन महतो का घर जलकर राख हो गया मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं।

### चौपटियां चौराहे पर चला मास्क चेकिंग अभियान

लखनऊ, (यूपीएनएस)। चौपटियां इलाके में स्थित कटरा बिजन बेग क्षेत्र के अन्तर्गत चौपटियां चौराहा समेत पूरी इलाके में शनिवार रात्रि पुलिस ने मास्क को लेकर चेकिंग अभियान शुरू किया। सराय माली खां, कच्चापुल और इसके निकट इलाकों में आज कटरा बिजन बेग चौकी प्रमारी संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में मास्क को लेकर लोगों में जागरूक फैलाने और सरकारी आदेशों का पालन कराने के लक्ष्य को लेकर संघन जांच का कार्य किया गया। एस.आई. अरुण कुमार, हेड कांस्टेबल मो. अरशी, कांस्टेबल अजीत कुमार सहित टीम के अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा पूरे इलाके में सख्ती के साथ वाहन चेकिंग का कार्य किया गया साथ-साथ पुलिस ने बिना मास्क गाड़ी चलाने वाले यात्रियों का चालान किया तथा कुछ को सीख देकर भी छोड़ा। चौकी प्रमारी संजय कुमार गुप्ता ने अपने माहदतों के साथ सराय माली खां से लेकर चौपटियां, कच्चापुल तक पैदल यात्रियों को भी मास्क न लगाने पर फटकार लगायी और हिदायत देकर छोड़ा। चौकी प्रमारी ने बताया कि कोरोना का मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लोग हैं कि अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं ऐसे में पूरे इलाके में प्रतिदिन चेकिंग का कार्य किया जायेगा तथा मास्क न पहनने वालों के साथ सख्ती से निपटा जायेगा।

### युवक से कार सवार बदमाशों ने लूटे रुपये

लखनऊ, (यूपीएनएस)। विभूतिखंड में रात कार सवार बदमाशों ने हमला बोल कर स्कूटी सवार युवक से रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया। पीड़ित ने विभूतिखंड कोतवाली में लूट का मुकदमा दर्ज कराया है। चिनहट इस्माइलगंज निवासी संजीत चौहान के अनुसार रात 12.30 बजे करीब वह घर लौट रहे थे। विभूतिखंड जीएस लान के पास पहुंचने पर कार सवारों ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया। संजीत कुछ समझ पाते। उससे पहले ही कार से तीन युवक नीचे उतर आए। जिन्होंने संजीत को पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया। इस बीच बदमाशों ने संजीत का मोबाइल फोन, दस हजार रुपये और चेन छीन ली। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। राहगीरों की मदद से संजीत ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। फिर विभूतिखंड कोतवाली पहुंच कर कार सवार युवकों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल के पास लगे सीसी फुटेज की मदद से बदमाशों को पुलिस तलाश रही है।

## महा विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेज की मांग की

लखनऊ। कोरोना महामारी को देखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ ने शहर भर कालेजों में ऑनलाइन क्लासेज की मांग की। इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में परीक्षाओं को टालने की मांग की थी, जिसके बाद परीक्षा टल गई। लुआक्ट अध्यक्ष डॉ मनोज कुमार पांडे का कहना है कि सभी कॉलेज में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना ना के मामले आ रहे हैं। बढ़ते कोरोनावायरस को देखते हुए उन्होंने जिला शिक्षा कारी से महा विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेज कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन सभी कॉलेज आते हैं।

### हेली मिलन समारोह मनाया गया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' ने आज अपने बहादुरगंज स्थित आवास पर प्रयागराज में लोगों का साथ सपरिवार स्वागत एवं होली मिलन समारोह आयोजित किया।

# मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम, बचाव, उपचार तथा टीकाकरण की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा की

लखनऊ, (यूपीएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल के दौर पर निकलने से पूर्व अपने सरकारी आवास पर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम, बचाव, उपचार तथा टीकाकरण की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा की। उन्होंने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत तथा म्युनिसिपल वॉर्ड स्तर पर निगरानी समितियों का गठन आज ही कर उन्हें सक्रिय करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ युवक मंगल दल, चौकीदार इत्यादि को निगरानी समिति में शामिल किया जाए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में सिविल डिफेंस तथा स्वैच्छिक संगठनों को निगरानी समितियों में सम्मिलित किया जाए। निगरानी कार्य में जनप्रतिनिधियों की भी सहायता ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगरानी समितियों अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले यात्रियों की मॉनीटरिंग करें। साथ ही, वे ऐसे अन्य व्यक्तियों की भी निगरानी करें, जिनमें कोविड-19 के लक्षण मौजूद हों। उन्होंने कहा कि कोरोना मामलों की मैपिंग कर रणनीतिक निगरानी से ऐसे मामलों का शीघ्र पता चल सकेगा और मरीज को आइसोलेट किया जा सकेगा। किसी भी संक्रमित व्यक्ति से सम्बन्धित 25 लोगों की टेरिस्टिंग की जाए, इससे कोरोना के प्रसार को रोकने में काफी मदद मिलेगी। निगरानी समितियों के माध्यम से सामुदायिक निगरानी करके

## मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री भगवती सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया

लखनऊ, (यूपीएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मंत्री भगवती सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है।

## बांग्लादेश को 54 रैंक अनाज एवम अन्य खाद्यान्नों की आपूर्ति उपलब्ध कराई गई

लखनऊ, (यूपीएनएस)। ग्राहक सेवा ही परम ध्येय के मूलमंत्र का अनुसरण करते हुए उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल द्वारा भारत सरकार की विदेश व्यापारिक नीतियों के अनुपालन में एक अमृतपूर्व उपलब्धि हासिल की गई। इस उपलब्धि के अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष अप्रैल 20-मार्च 21 में मंडल के सुल्तानपुर स्टेशन से 18,गोरीगंज से 25, रायबरेली से 06,ऊंचाहार से 02, शाहगंज से 01, मोहनलालगंज से 01 एवम व्यासनगर स्टेशन से 01(कुल 54 रैंक)जिसका भार 1.3 लाख टन तथा धनराशि रु 19,66,16166- के अनाज एवम अन्य खाद्यान्नों का सफलतापूर्वक लदान करते हुए इस सामग्री की बांग्लादेश में सुरक्षित एवम यथासमय आपूर्ति उपलब्ध कराई गई। भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों के तहत निर्यात की दिशा में मंडल द्वारा यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। मंडल रेल प्रबंधक,उत्तर रेलवे,लखनऊ श्री संजय त्रिपाठी ने इस विषय में अवगत कराया कि मंडल, भारत सरकार की विदेश व्यापारिक नीतियों के अनुपालन में पड़ोसी देश के साथ तत्परता से अपनी सक्रिय भूमिका का संवहन कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया की मंडल अपनी प्रतिबद्ध, अतिराम एवम सर्वोच्च सेवाओं द्वारा अपने सम्मानित ग्राहकों तथा राष्ट्र की सेवा हेतु संकल्पित भाव से उपस्थित है।

## यूपी में 3290 नए कोरोनावायरस संक्रमित मरीज, 14 लोगों की मौत, हालात खतरनाक

लखनऊ, (यूपीएनएस)। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण ने मार्च के बाद अब अप्रैल में तेज गति पकड़ ली है। यूपी में बीते 24 घंटे में 3290 नए कोरोनावायरस संक्रमित मरीज मिले हैं। राजधानी लखनऊ की कोरोना वायरस मरीजों की संख्या सुभे तो दंग रह जाएंगे। अकेले लखनऊ में 1041 कोरोनावायरस संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं यूपी सरकार कोरोना वैकसीनेशन पर काफी जोर दे रही है। कोरोनावायरस के 1041 के आंकड़ों ने लखनऊ जिला प्रशासन के साथ सीएमओ ऑफिस के कर्मि काफी बेचैन हैं। लखनऊ में कोरोना के नए सक्रिय केस एक हजार के पार पहुंचने पर शासन भी गंभीर हो गया है। प्रदेश में आज 14 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें छह लखनऊ के हैं। पूरे प्रदेश में स्कू-कॉलेजों को 11 अप्रैल तक बंद करने के साथ कोर्ट को भी बंद कर दिया गया है।

# सात सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सचिव ने किया एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आवाहन

अमित रेखा मुनीर आलम बृजमनगंज महाराजगंज। जनपद महाराजगंज के ब्लाक बृजमनगंज स्थित रामलीला मैदान में फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जिला इकाई महाराजगंज जिला अध्यक्ष पौहारी सरकार के तत्वाधान में प्रदेश सरकार से 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि सरकार से अपनी मांग को लेकर दिनांक 5 अप्रैल 2021 को सभी कोटेदार अपनी दुकानें बंद रख सांकेतिक हड़ताल करेंगे।

बैठक के माध्यम से कोटेदार संघ के प्रदेश सचिव राजेंद्र सोनी ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से वर्ष 2001 से 2015 डोर स्टेप डिलीवरी का भाड़ा तथा एमडीएम भाड़ा भुगतान तथा माह जून 2020 में विक्रेताओं द्वारा मनरेगा श्रम विभाग में बांटे गए फ्री

खाद्यान्न व जुलाई 2020 प्रदानमंत्री गरीब कल्याण योजना



के तहत फ्री खाद्यान्न का कमीशन तथा गोदाम पर होम डिलीवरी का खाद्यान्न ना पहुंचने के कारण अपने पैसे से खाद्यान्न दुलाई भाड़ा पल्लेदारी जो कि शासन के विरुद्ध है इन सभी बिंदुओं पर भुगतान कराने के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ सहित महाराजगंज जिले के जिला अधि



कारी उप जिला अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी डीएसओ सहित सभी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा महाराजगंज के प्रदेश सचिव राजेंद्र सोनी ने कहा है कि मऊ, आजमगढ़ तथा अन्य जिलों

में भुगतान हो गया है परंतु महाराजगंज जिले में भुगतान न होने से कोटेदार संघ के लोगों में काफी समस्याएं आ रही हैं उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द कोटेदारों का बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाता है तो संगठन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 5 अप्रैल दिन सोमवार को सभी कोटेदार सांकेतिक हड़ताल करते हुए एक दिन अपनी दुकान बंद रखें। बैठक में जिला उपाध्यक्ष ईश्वर चंद पटेल तिलकधारी प्रसाद अरुण सिंह अब्दुल सलाम, विष्णु जायसवाल, नटवर जी गोयल, गिरीश चंद नरसिंह नारायण शम्स तबरेज, सुधा देवी,अभिषेक शुक्ला, हीरालाल, मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक जा सकता है। उन्होंने आर०टी०पी०सी०आर० टेरिस्टिंग की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने रेड् टजिक सैम्पलिंग के माध्यम से आर०टी०पी०सी०आर० के सैम्पल भेजने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड्स की व्यवस्था की जाए। साथ ही, इन अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इन अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेण्टीलेटर्स तथा दवाइयों की भी आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कोविड अस्पतालों में वरिष्ठ डॉक्टरों निरन्तर राउण्ड लें। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ट कण्ट्रोल सेन्टर्स को प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकधुलिस अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतिदिन सुबह कोविड चिकित्सालय में तथा शाम को इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेन्टर में बैठक कर स्थिति की समीक्षा करें तथा आगे की रणनीति बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से संक्रमित जिन व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, उन्हें लगातार मॉनीटर किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरन्त अस्पताल में भर्ती कराया जाए। होम आइसोलेशन में रखे गये मरीजों को दवाइयां तथा अन्य उपचार उपलब्ध कराया जाए। पूर्व निध

# प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी वर्षों के शोध के बाद पेश हेमो-डी

## माइग्रेन के लिये भी ड्रग्स लैब ने न्यूरिन-एम उतारी

लखनऊ, (यूपीएनएस)। देश-दुनिया में फैली महामारी के प्रकोप बीच प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास करने के लिये वर्षों के शोध के बाद हेमो-डी को पेश किया गया है। वहीं इसके अलावा कंपनी ने माइग्रेन के इलाज के लिए न्यूरिन-एम प्रस्तुत किया है। इन दो अनुसंधान आधारित उत्पादों का क्लिनिकल ट्रायल सीसीआरयूएम ने किया और फिर एनआरडीसी को यह तकनीक हस्तांतरित कर दी, जिसने इन उत्पादों को बनाने का लार्डसेंस ड्रग्स लैब को दिया। ड्रग्स लैब ये उत्पाद लॉन्च करने वाली पहली यूनानी कंपनी है। आज यहां दो यूनानी दवाओं के पेश करने के लिये हुये समारोह में डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर हयात सिद्दीकी, डायरेक्टर यूनानी सर्विसेस, यूपी, डॉक्टर जमाल अख्तर, प्रिंसिपल, तकमील उत-तिब कॉलेज, लखनऊ और डॉक्टर सैयद अहमद खान, डिप्टी डायरेक्टर, सीसीआरयूएम, आयुष मंत्री, भारत सरकार थे। विशेष अतिथियों में डॉक्टर नफीस खान, डिप्टी डायरेक्टर, सीआरआईयूएम मंत्री, आयुष, भारत सरकार एवं जनाब डॉक्टर मोजिबुर रहमान, सदस्य, सीसीआईएम, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार थे। इस अवसर पर हकीम सिराजुद्दीन अहमद ने कहा, "देखा गया है कि महामारी का शिकार ज्यादातर वही लोग होते हैं, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। मजबूत शरीर वाले लोगों पर वायरस का असर ज्यादा नहीं हो पाता और वो तेजी से स्वास्थ्य लाभ लेने में सफल होते हैं। हमारा उत्पाद हेमो डी शरीर की दुर्बलता को दूर कर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, ताकि उसे रोगों से लड़ने की शक्ति मिले।

उन्होंने आगे कहा, "ड्रग्स लैबोरेटरीज में हम निरंतर शोध करते हुए यूनानी विधि से उच्च गुणवत्ता की दवाइयां बनाते हैं। यह विधि न केवल चिकित्सा की सबसे पुरानी विधियों में से एक है, बल्कि अपने कारगर इलाज के चलते पूरी दुनिया में लोकप्रिय भी हो रही है। हमारे इन दोनों उत्पादों ने शोध के चरण में बहुत अच्छे परिणाम दिए। इन दवाइयों का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम इन्हें बाजार में प्रस्तुत कर रहे हैं। खासकर मौजूदा महामारी के दौर में किफायती मूल्य में हेमो डी जैसी उच्च गुणवत्ता की दवाइयों को प्रस्तुत करना हमारा ध्येय भी है और जनसेवा का साधन भी। भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर एवं वैज्ञानिकों ने सालों की कड़ी मेहनत व शोध के बाद माइग्रेन के लिए न्यूरिन-एम एवं आम दुर्बलता को दूर कर प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनाने के लिए हेमो-डी का फॉर्मूला तैयार किया है। इन औषधियों का निर्माण करने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि ये दवाएं बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं और आधुनिक युग में यूनानी चिकित्सा पद्धति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये दवाइयां आम लोगों के लिए बनाई गई हैं, इसलिए इनकी प्रति टैबलेट का मूल्य केवल 4 रुपये होगा, जो आम आदमियों की पहुंच में है। ये दोनों दवाइयां इस माह से सभी अग्रणी रिटेल आउटलेट्स और डॉक्टरों के पास मिलेंगी। इन दवाइयों का निर्माण करने वाली कंपनी, ड्रग्स लैब का 230 साल पुराना इतिहास है, जो हकीमों की आठ पीढ़ियों से जुड़ा है। सातवीं पीढ़ी के हकीम सिराजुद्दीन अहमद ने सन 1985 में मेरठ में ड्रग्स लैब की स्थापना की थी।

# सेवानियमावली में मनमाना हुंआ संशोधन तो आईटीआई कर्मि करेगें आन्दोलन

लखनऊ, (यूपीएनएस)। उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशक कार्यदेशक सेवानियमावली में अगर मनमाने ढंग से नियमविरुद्ध संशोधन किया गया तो आईटीआई कर्मचारी संघ आन्दोलन करेगा। इसके लिए संघ ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रान्तव्यापी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसे पूर्व संघ का प्रतिनिधि मण्डल अपर मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज करायेंगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशक कार्यदेशक सेवानियमावली सम्बन्धी विभाग द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक योग्यता के आधार पर बी.टेक. धारकों को 25 प्रतिशत पद पर पदोन्नति आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए उ.प्र. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अखिलेश सिंह और महामंत्री अर्चना मिश्रा ने इसका विरोध किया है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव कार्मिक को पत्र लिखकर अनुदेशक और कार्यदेशक की संविलियन प्रस्तावित नियमावली में कई अन्य तथ्यात्मक आपत्तियां दर्ज कराते हुए इस प्रस्तावित नियमावली को निरस्त करने की मांग की गई है।

## दर्दनक हादसा रेलवे ट्रैक के पास मिला शव

अमिट रेखा – समशाद अंसारी

बेलवा कारखाना – कुशीनगर। जनपद के कठकुइरॉ क्षेत्र के

ग्राम लक्ष्मीपुर रेलवे क्रॉसिंग से पश्चिम कचनार टोला के सामने एक अंधेड़ सिरविहीन शव मिला। सूचना पर मुकामी पुलिस पहुंचकर शव का शिनाख्त कर पीएम हेतु भेज दिया। कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर रेलवे टाके से पश्चिम कचनार टोला के सामने एक अंधेड़ का शव शनिवार की सुबह लोगों ने देखा। इसकी चर्चा पर लोगों की भीड़ लग गयी। सूचना पर प्रभारी थानाध्यक्ष अरुण कुमार चौबे मय फोर्स पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त कराया। उसकी पहचान थाना क्षेत्र के ग्राम बदलपट्टी निवासी शाबिर पुत्र करीम बख्त उम्र 55वर्ष के रूप में हुआ। पुलिस ने पंचनामा बनवाकर शव को पीएम हेतु भेज दिया है। शव के शरीर पर सफेद कुर्ता, गमछा व नील रंग की लुंगी था।

## सेवरही पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोपियों को पकड़ा, आला कल्ल बरामद

अमिट रेखा – रमाशंकर सिंह

कुशीनगर। जिले की सेवरही पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्तों को आज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर सचिन्द्र पटेल के दिशा-निर्देशन में जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, कल दि 02 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को जरिये मुखबीर मिली सूचना पर सेवरही थानाध्यक्ष महेन्द्र चतुर्वेदी, उप निरीक्षक शनि कुमार चावला, आरक्षी रामलखन यादव, का 0 इशारार अहमद को साथ लेकर थाना क्षेत्र के ही गांव अहिरिली हनुमान सिंह के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0 08992021 धारा 304, 323, 504 भादवि में वांछित चल रहे तीन अभियुक्तगण महन्थ प्रसाद पुत्र स्व0 रोशन, रामनाथ प्रसाद पुत्र स्व0 रोशन निवासीगण बनरहा पश्चिम पट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर व एक बाल अपचारी निवासी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को न्यायालय भेज दिया। वही अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तीन अदद बांस का डण्डा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।

## कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित

'अब 8 मई 2021 को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन'

अमिट रेखा – निखिल कुमार / स्वतंत्र

कसया – कुशीनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर सचिव शशीना खान ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए 10 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है, जिस के स्थान पर अब उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मई 2021 को किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसके बचाव के प्रति जागरूक होना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्तागण व वादकारीगण न्यायालय परिसर में मास्क लगाकर प्रवेश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जिससे कोविड-19 के संक्रमण को जनपद में फैलने से रोका जा सके।

## नीलगाय के आतंक से किसान बेहाल, जिला प्रशासन मौन – रामचन्द्र सिंह

अमिट रेखा – रमाशंकर सिंह

कुशीनगर। एक तरफ तो सरकार विगत चार वर्षों में गन्ने के मूल्य में एक भी रुपया की बढ़ोतरी नहीं करके किसानों के कमर को तोड़ दिया है और किसानों का गन्ना खेतों में ही सुख जाने, खाद, डीजल, खाद्य सामग्री, गैस तथा अन्य बस्तुओं के दामों में अधिक मात्रा में वृद्धि करके सरकार किसान, गरीब, मजदूर जनता का हाल खस्ता करने में लगी है। ऐसी परिस्थिति में जनता जाय



तो जाय कहीं? जनपद कुशीनगर में नीलगाय के आतंक से किसानों का गन्ना, मक्का, गेहूँ आदि फसलों का नुकसान हो रहा है किसान बेहाल और परेशान है और जिला प्रशासन मौन धारण किये हुए है। यदि ऐसे ही नीलगायों से किसानों के फसलों का नुकसान होता रहा तो किसान की माली हालत बिल्कुल दयनीय हो जायेगी और किसान और उनके बच्चे भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे उक्त बाते वेटर्नस एसोसिएशन (पूर्व सैनिक संगठन) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान मोर्चा व भाकियू (अ) के जिलाध्यक्ष, कुशीनगर रामचन्द्र सिंह ने प्रेस विज्ञापित के माध्यम से अवगत कराया। प्रेस विज्ञापित के माध्यम से रामचन्द्र सिंह ने जिला प्रशासन को बताया है कि नीलगायों को वन विभाग की टीम को लगाकर इनको पकड़वाकर जंगल में छोड़ा जाय या इनसे निजात पाने के लिये कोई और कारगर उपाय अपनाया जाय ताकि जनपद में हो रहे किसानों के फसलों के नुकसान को बचाया जा सके जो किसान हित में मिल का पत्थर साबित होगा।

# 'जिलाधिकारी ने जूम वीसी के माध्यम से कोरोना नियंत्रण हेतु सम्बन्धी अधिकारियों से किया संवाद'

## 'जूम वीसी के माध्यम से टेस्टिंग/ट्रेकिंग/इलाज सम्बन्धित दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश'

अमिट रेखा – निखिल कुमार/स्वतंत्र

कसया – कुशीनगर। जिलाधिकारी एस राज लिंगम की अध्यक्षता में सीएमओ कंट्रोल रूम में जूम वीसी के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को कोरोना नियंत्रण सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोविड-19 वैक्सीन, अनिर्दिष्ट कृत अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, नर्सिंग होम एवं आयुष्मान कार्ड विषयों पर आधारित जूम वीसी के आयोजन दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में पिछले दो-तीन दिनों में कोविड-19 के बढ़ते केस को लेकर गंभीर चिंता जाहिर

की तथा आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना के प्रभावी नियंत्रण हेतु ग्राम निगरानी समितियों को सक्रिय करने के साथ ही ब्लॉक स्तर पर बैठक कराने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने टीकाकरण के संबंध में बताया कि शासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनपद में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के टीकाकरण का लक्ष्य 183000 है जिसमें 81193 का टीकाकरण हो गया है इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने चिंता जाहिर करते हुए सभी ईओ नगर पालिका/नगर पंचायत को वार्ड स्तर पर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों की सर्वे कराने सहित

एक्शन प्लान तैयार कर प्रभावी कार्यवाही का निर्देश दिये। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को दूसरा डोज नहीं लगवाने पर प्रेरित करने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि मीटिंग नहीं प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हेतु मोबिलाइज करने की बात की गई तथा अधिक से अधिक वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया, उन्होंने कुछ जगहों जैसे खड्डा में जीरो सैंपलिंग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लैब टेक्नीशियन को फटकार लगाते हुए कार्यों में सुधार लाये जाने का निर्देश

दिये।

जिला

धिकारी

श्री

लिंगम

ने रेलवे

स्टेशनों

सहित

बस

स्टेशनों

पर

सम्पलिंग

है, तु

स्थाई

टीम

गठित

करने का निर्देश मुख्य चिकित्सा

टेस्टिंग हेतु दायरा बढ़ाने पर

विकास अधिकारी गण जुड़े रहे।



## प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महदेवा दूबे पर हुआ मुख्यमंत्री आरोग्य

## स्वास्थ्य मेले का आयोजन अधीक्षक- डा. अंग्रेश सिंह

उप जिलाधिकारी राजेश जायसवाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महदेवा दूबे का किया निरीक्षण

महाराजगंज जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महदेवा दूबे में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन अधीक्षक डाक्टर अंग्रेश सिंह ने किया

अमिट रेखा सुनील पांडेय ब्यूरो महाराजगंज। आपको

जिलाधिकारी फरेंदा राजेश जायसवाल ने पहुंचकर निरीक्षण

सिंह ने बताया कि कोई भी मरीज अब छुट नहीं पाएगा

आरोग्य स्वास्थ्य मेले में किया जाएगा। इसी के तहत आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महदेवा दूबे कैम्प में आये लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण व टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि जो भी व्यक्ति रोग से ग्रसित हो वह आयुष्मान भारत कार्ड बनवा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क जांच करा सकते हैं। पीएमडब्ल्यू अमिट पांडे द्वारा आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ रोग के बारे में बताया गया गांव में कुछ रोगियों को चिन्हित कर अस्पताल भेजें सरकार निशुल्क उपचार करेगी। उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। इसी क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य

केंद्र महदेवा दूबे में बताया गया की टीकाकरण का कार्य हमारे एएनएम द्वारा गांव-गांव में कराया जा रहा है जो गर्भवती महिलाएं नवजात शिशु टीकाकरण से वंचित हो रहे हैं उनको आप टीका जरूर लगवाने उनको स्वस्थ रखें बच्चा स्वस्थ रहेगा तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। स्वास्थ्य शिविर में मरीजों का क्षय रोग, मधुमेह रोग सहित तमाम रोगों का जांच किया जा रहा है। आपको बता दें कि - आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महदेवा दूबे में पुनः मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन अधीक्षक डॉक्टर अंग्रेश सिंह, वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक केशव शुक्ला, डॉ विशाल चतुर्वेदी, विद्या चौहान, अनरुद्ध प्रताप पांडे, गौरी

शंकर त्रिपाठी, डाक्टर रत्नेश कुमार मोर्था, फार्मासिस्ट यशोदा नंदन मिश्र, जयप्रकाश सिंह, अमिट पांडेय, राममिलन, किरन सिंह, धर्मेश कुमार, हाशिम अंसारी, शर्मिला, रंजना यादव नेतृत्व में किया गया, स्वास्थ्य शिविर में लगभग 65 मरीजों का जांच कर उपचार किया गया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आरोग्य मेले में आए क्षय रोग की जांच एवं निक्षय पोषण योजना के तहत क्षयरोगियों को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि के बारे में जानकारी दी गई, कुछ रोगियों की जांच भी किया गया। समस्त रोगियों को कोविड-19 की जांच की गई। वहीं क्षय रोगियों को निक्षय पोषण योजना के तहत 500 प्रति माह पोषण भत्ता दिया जाता है।

## ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन एलर्ट व जटहा थाने हुआ महत्वपूर्ण बैठक

जटहा – कुशीनगर। जनपद कुशीनगर के थाना जटहा

प्रत्याशियों द्वारा अगर शराब मांस मछली रुपया मतदाताओं में वितरण किया जा रहा हो तो

राकेश कुमार यादव व चौकी प्रभारी मंसाछापर अनिल गल्होत उप निरीक्षक रनबीर उप निरीक्षक संदीप सिंह हंडा कांस्टेबल प्रहमान लिपिक वीरेंद्र कुमार सोनकर कांस्टेबल अरशद कांस्टेबल कमरुल

यादव कांस्टेबल चालक विजय कुमार कांस्टेबल मु0 राजू कांस्टेबल राकेश कुमार यादव प्रथम कांस्टेबल गोपीनाथ कांस्टेबल सुधीर कुमार कांस्टेबल सिद्धार्थ कुमार महिला कांस्टेबल उपासना गुप्ता तथा चौकीदार वीरेंद्र प्रसाद चौकीदार प्रेम कुमार चौकीदार राजेश्वर चौकीदार चंद्रशेखर चौकीदार जामदार अंसारी चौकीदार राजेंद्र यादव चौकीदार नगीना प्रसाद चौकीदार सुरेश गुप्ता चौकीदार सुदामा पाल चौकीदार राजेंद्र महिला चौकीदार बिंदा देवी महिला चौकीदार मीना कुमारी इत्यादि सैकड़ों की संख्या में थाना क्षेत्र के चौकीदार व थाना के कर्मचारी उपस्थित रहे।

## एलर्ट व जटहा थाने हुआ महत्वपूर्ण बैठक

जटहा – कुशीनगर। जनपद कुशीनगर के थाना जटहा

प्रत्याशियों द्वारा अगर शराब मांस मछली रुपया मतदाताओं में वितरण किया जा रहा हो तो

राकेश कुमार यादव व चौकी प्रभारी मंसाछापर अनिल गल्होत उप निरीक्षक रनबीर उप निरीक्षक संदीप सिंह हंडा कांस्टेबल प्रहमान लिपिक वीरेंद्र कुमार सोनकर कांस्टेबल अरशद कांस्टेबल कमरुल

यादव कांस्टेबल चालक विजय कुमार कांस्टेबल मु0 राजू कांस्टेबल राकेश कुमार यादव प्रथम कांस्टेबल गोपीनाथ कांस्टेबल सुधीर कुमार कांस्टेबल सिद्धार्थ कुमार महिला कांस्टेबल उपासना गुप्ता तथा चौकीदार वीरेंद्र प्रसाद चौकीदार प्रेम कुमार चौकीदार राजेश्वर चौकीदार चंद्रशेखर चौकीदार जामदार अंसारी चौकीदार राजेंद्र यादव चौकीदार नगीना प्रसाद चौकीदार सुरेश गुप्ता चौकीदार सुदामा पाल चौकीदार राजेंद्र महिला चौकीदार बिंदा देवी महिला चौकीदार मीना कुमारी इत्यादि सैकड़ों की संख्या में थाना क्षेत्र के चौकीदार व थाना के कर्मचारी उपस्थित रहे।



बाजार में अमिट रेखा – राज बरनवाल

इसकी सूचना तत्काल हमारे निजी नंबर पर उपलब्ध करा दें चौकीदार का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। चौकीदारों को आगे बताते हुए थानाध्यक्ष ने यह भी कहा कि हर चौकीदार के पास एक छोटी वाली डायरी होनी चाहिए डायरी में उसका स्वयं का मोबाइल नंबर व थाने के बीट के कर्मचारियों पुलिस सब इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष का मोबाइल नंबर जरूर अंकित होना चाहिए। तथा लाल साफा और डंडा साथ में होना चाहिए इससे दूर से देखने वाला ही देख यह समझले कि उक्त व्यक्ति थाने की चौकीदार है चौकीदार अपनी पहचान खोते जा रहे हैं पहचान को बरकरार रखने की आवश्यकता है अराजक तत्वों से डरे मत मेरा नंबर ले ले कभी भी किसी भी समय हमें फोन कर सूचना दें इस मौके पर थाना के वरिष्ठ उप निरीक्षक ध्वौकी प्रभारी कटाई भरपूरवा

हसन हेड कांस्टेबल श्रीप्रकाश सिंह हेड कांस्टेबल कमलेश सिंह हेड कांस्टेबल कैलाश प्रसाद हेड कांस्टेबल संतोष प्रजापति हेड कांस्टेबल महेंद्र

यादव कांस्टेबल चालक विजय कुमार कांस्टेबल मु0 राजू कांस्टेबल राकेश कुमार यादव प्रथम कांस्टेबल गोपीनाथ कांस्टेबल सुधीर कुमार कांस्टेबल सिद्धार्थ कुमार महिला कांस्टेबल उपासना गुप्ता तथा चौकीदार वीरेंद्र प्रसाद चौकीदार प्रेम कुमार चौकीदार राजेश्वर चौकीदार चंद्रशेखर चौकीदार जामदार अंसारी चौकीदार राजेंद्र यादव चौकीदार नगीना प्रसाद चौकीदार सुरेश गुप्ता चौकीदार सुदामा पाल चौकीदार राजेंद्र महिला चौकीदार बिंदा देवी महिला चौकीदार मीना कुमारी इत्यादि सैकड़ों की संख्या में थाना क्षेत्र के चौकीदार व थाना के कर्मचारी उपस्थित रहे।

## एनकाउंटर में एसएसआई और बदमाश घायल

अमिट रेखा – रमाशंकर सिंह

कुशीनगर। एक तरफ तो सरकार विगत चार वर्षों में गन्ने के मूल्य में एक भी रुपया की बढ़ोतरी नहीं करके किसानों के कमर को तोड़ दिया है और किसानों का गन्ना खेतों में ही सुख जाने, खाद, डीजल, खाद्य सामग्री, गैस तथा अन्य बस्तुओं के दामों में अधिक मात्रा में वृद्धि करके सरकार किसान, गरीब, मजदूर जनता का हाल खस्ता करने में लगी है। ऐसी परिस्थिति में जनता जाय

अमिट रेखा तहसील प्रभारी देवरिया। दिन शनिवार को रात में जनपद के थाना कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक श्री विपिन मलिक मय फोर्स दबिश में जा रहे थे कि बीच में 02 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ में अभियुक्त इब्रान सिद्दीकी सा0 सेमरा हरदो थाना कुबेरस्थान, जनपद कुशीनगर के पैर में गोली लगी, जबकि एक दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। इस मुठभेड़ में वरिष्ठ उप निरीक्षक

श्री विपिन कुमार के हाथ में चोट आई है। चुटहिल जिला अस्पताल में इलाजगत है। मौके से बदमाशों की 09 एम0एम0 पिस्टल की 03 अदद फायर की गयी गोली तथा एक मोटर साइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त इब्रान सिद्दीकी पर जनपद देवरिया व कुशीनगर में विभिन्न गम्भीर धाराओं के 08 अभियोग दर्ज हैं। अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0

52820 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 56220 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक द्वारा करते हुए विधिक कार्यवाही करायी जा रही है।



52820 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 56220 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक द्वारा करते हुए विधिक कार्यवाही करायी जा रही है।

## जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना निचलौल का निरीक्षण कर दिया निर्देश

अमिट रेखा ब्यूरो महाराजगंज

महाराजगंज। जिलाधिकारी डा0 उज्ज्वल कुमार व पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता द्वारा निचलौल थाने का निरीक्षण कर सी0अ0, थानाध्यक्ष

यक्ष व एसएसआई की बैठक कर दिशा निर्देश दिये गये।

बैठक में अवैध शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध तथा अवैध कार्यों संलिप्त व्यक्ति पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये गये। गांवों का भ्रमण कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या अन्य कार्यों में ब्यवधान डालने व अनैतिक कार्यों में संलिप्त व्यक्ति को चिन्हित कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में किसी प्रकार का खलल बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे में सभी पुलिस अधिकारी निष्पक्ष चुनाव हेतु कमर कस लें। मतदान केंद्रों का दौराकर सुनिश्चित हो लें तथा अकेलानिक कार्यों के प्रति कार्यवाहिया शुरू कर दिया जाय। निचलौल थाने अन्तर्गत 76 मतदान



केंद्र व 199 बूथ है। शत्रु लाइसेंस 186 है जिसे जमा करा लिया गया। बैठक में सी0अ0, सी0अ0 उपाध्यक्ष, थानाध्यक्ष व सभी पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद रहे।

केंद्र व 199 बूथ है। शत्रु लाइसेंस 186 है जिसे जमा करा लिया गया। बैठक में सी0अ0, सी0अ0 उपाध्यक्ष, थानाध्यक्ष व सभी पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद रहे।

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक मुद्रक तथा सम्पादक अमरनाथ पाण्डेय द्वारा अमिट प्रिन्टर्स कलेज रोड फजिलनगर से मुद्रित ग्राम बरदहा पाण्डेय फजिलनगर कुशीनगर से प्रकाशित।

सम्पादक अमरनाथ पाण्डेय मो. - 9532989009

उप सम्पादक - के.के. राय सह. सम्पादक- चन्द्रशेखर यादव प्रदेश प्रभारी- राजू प्रसाद श्रीवास्तव मो- 9792617070

विज्ञापन व्यवस्थापक- नसरुल्लाह अंसारी प्रबंधक- निखिल कुशवाहा ईमेल : amitrekhn@gmail.com

अमिट रेखा व अमिट दैनिक का सम्बन्ध